

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 12.02.2021

**थाना अल्हागंज पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड,
भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले, क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में थाना अल्हागंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में दिनांक 11.02.2021 की रात्रि करीब 22.15 बजे थाना अल्हागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम असरफपुर के जंगल के कटरी क्षेत्र में झोपडी डालकर अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे दो अभियुक्तों 1-जयराम 2-रामचन्द्र को गिरफ्तार किया गया । मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण बरामद किये गये । इस सम्बन्ध में थाना अल्हागंज पर मु0अ0सं0 45/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त जयराम एक पेशेवर अपराधी है जो पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री चलाने में जेल जा चुका है । पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग तमंचा बनाने के सामान को जनपद कानपुर से मंगवाते थे तथा तमंचा बनाकर एक तमंचा 2000/- में बेचते थे । इनके द्वारा तमंचा बनाकर आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे । पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अन्य तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- 1-जयराम पुत्र गुवारे लाल नि0 ग्राम असरफपुर थाना अल्हागंज शाहजहाँपुर ।
- 2-रामचन्द्र पुत्र सीताराम नि0सीडे चकरपुर थाना राजेपुर फर्रुखाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त जयराम का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 53/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अल्हागंज शाहजहाँपुर ।
- 2-मु0अ0सं0 80/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट(शस्त्र फैक्ट्री) थाना अल्हागंज शाहजहाँपुर
- 3-मु0अ0सं0 45/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट(शस्त्र फैक्ट्री) थाना अल्हागंज शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण :-

- 1- 02 तमंचे निर्मित 315 बोर
- 2- 02 अर्द्धनिर्मित नाल (315 बोर व 12 बोर)
- 3- 01 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर
4. हथौडा, सुम्मी, लोहे की चादर, सिंग्रंग, लकड़ी के गुटके, लोहे की रॉड, कोयला, पेचकस आदि 30 अदद अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजब सिंह थाना अल्हागंज शाह0
2. उ0नि0 श्री तीरथराम
3. का0 अजयपाल
4. का0 नवीन कुमार
5. का0 वसु आर्य
6. का0 दीपेन्द्र
7. का0 रोहित कुमार
8. का0 राजेश थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर